



8 जून, 2021 को होने वाले आम चुनावों में मतदान करने के लिए आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए...

क्या मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?



आप 8 जून, यानी चुनाव वाले दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक **व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते/सकती हैं**। विकलांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। पोलिंग स्थान पेज पर सूचीबद्ध अपने पोलिंग स्टेशन के लिए **Vote.NJ.Gov** पर जाएं।

डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है?



पंजीकृत मतदाता डाक द्वारा मतदान के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

- 1... Vote.NJ.Gov** पर डाक द्वारा मतदान पेज पर जाएं, और डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन डाउनलोड कर उसे प्रिंट करें। फिर, अपना आवेदन पूरी तरह से भर कर अपने काउंटी क्लर्क को उसे डाक द्वारा भेजें या व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द करें। डाक द्वारा मतदान प्राप्ति के लिए, 1 जून तक वह आपके काउंटी क्लर्क को प्राप्त हो जाना चाहिए।
- 2... 7 जून दोपहर 3:00 बजे तक अपने काउंटी क्लर्क के पास व्यक्तिगत रूप से आवेदन करें।** अपने काउंटी क्लर्क का संपर्क विवरण **Vote.NJ.Gov** पर प्राप्त करें।

डाक द्वारा मतदान को वापस कैसे लौटाया जा सकता है?

बहुत आसान है: बस **मतदान करें, हस्ताक्षर करें, सील करें, वापस लौटाएं**। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे वापस लौटा सकते हैं।

- 1... डाक:** इसके ऊपर 8 जून शाम 8:00 बजे तक या उससे पहले डाक टिकट लग जानी चाहिए और 14 जून तक या उससे पहले आपकी काउंटी के चुनाव बोर्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए।
- 2... सुरक्षित मतदान पेटी:** अपना मतपत्र 8 जून शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में से किसी एक में डाल दें। **Vote.NJ.Gov** पर मतदान पेटी के स्थान की जानकारी लें।
- 3... चुनाव बोर्ड कार्यालय:** अपना मतपत्र 8 जून शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय बोर्ड को व्यक्तिगत तौर पर सुपुर्द करें। काउंटी चुनाव अधिकारी की संपर्क जानकारी **Vote.NJ.Gov** पर प्राप्त करें।

ध्यान दें: आपका डाक द्वारा मतदान इस चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन को वापस नहीं लौटाया जा सकता है।

मतदान के लिए पंजीकरण कैसे किया जाए?



8 जून, 2021 को होने वाले स्थानीय चुनावों में मतदान करने के लिए आपको 18 मई तक पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए या अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति जांचने के लिए **Vote.NJ.Gov** पर जाएं।

मुझे अतिरिक्त जानकारी या सहायता कहाँ से प्राप्त हो सकती है?



अधिक जानकारी और अधिक उत्तर की प्राप्ति के लिए, **Vote.NJ.Gov** पर जाएं, अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें, या पर मतदाता सूचना और सहायता लाइन **1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)** को कॉल करें।



गवर्नर Phil Murphy
राज्य सचिव Tahesha Way

Vote.NJ.Gov
1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)

